



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 4, 2014/माघ 15, 1935

No. 254]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 4, 2014/MAGHA 15, 1935

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2014

का.आ. 307(अ).— केन्द्रीय सरकार, अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 37) की धारा 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में तारीख 8 दिसंबर, 2011 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 2745(अ) तारीख 2 दिसंबर, 2011 का अधिक्रमण करते हुए, निम्नलिखित देशों को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अभिसमय देश घोषित करती है, अर्थात् :-

क्रम सं. देश का नाम

1. अल्बानिया
2. अंगोला
3. एंटीगुआ और बारबुडा
4. अर्जेंटीना
5. अर्मेनिया
6. ऑस्ट्रेलिया
7. ऑस्ट्रीया
8. बहरीन, किंगडम
9. बांग्लादेश
10. बारबाडोस

11. बेल्जियम
12. बेलीज़
13. बेनिन
14. बोलीविया
15. बोत्सवाना
16. ब्राज़िल
17. बुनेई दारूसलाम
18. बुल्गारिया
19. बुर्किना फासो
20. बुरुंदी
21. कंबोडिया
22. कैमरून
23. कनाडा
24. केप वर्ड
25. मध्य अफ्रीकी गणराज्य
26. चाड
27. चिली
28. चीन
29. कोलम्बिया
30. कांगो
31. कोस्टा रिका
32. कोटे डी इबोरे
33. क्रोएशिया
34. क्यूबा
35. सायप्रस

36. चेक गणराज्य	78. लाटविया
37. कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	79. लेसोथो
38. डेनमार्क	80. लिचेंस्टीन
39. जिबोटी	81. लिथुआनिया
40. डॉमिनिका	82. लक्ज़मबर्ग
41. डॉमिनिक गणराज्य	83. मकाओ, चीन
42. इक्वेडोर	84. मेडागास्कर
43. मिस्र	85. मलावी
44. अल सल्वाडोर	86. मलेशिया
45. एस्तोनिया	87. मालदीव
46. यूरोपीय समुदाय	88. माली
47. फिजी	89. माल्टा
48. फिनलैंड	90. मॉरिटानिया
49. मैसेडोनिया के पूर्व यूगोस्लाव गणराज्य (फायरोम)	91. मॉरिशस
50. फ्रांस	92. मेक्सिको
51. गैबन	93. माल्डोवा
52. गाम्बिया	94. मंगोलिया
53. जॉर्जिया	95. मोरक्को
54. जर्मनी	96. मोज़ाम्बिक
55. घाना	97. म्यांमार
56. ग्रीस	98. नामीबिया
57. ग्रेनेडा	99. नेपाल
58. ग्वाटेमाला	100. नीदरलैंड
59. गिनी	101. न्यूज़ीलैंड
60. गिनी बिसाऊ	102. निकारागुआ
61. गुयाना	103. नाइजर
62. हैती	104. नाइजीरिया
63. हॉंडुरस	105. नॉर्वे
64. हांगकांग, चीन	106. ओमान
65. हंगरी	107. पाकिस्तान
66. आइसलैंड	108. पनामा
67. इंडोनेशिया	109. पापुआ न्यू गिनी
68. आयरलैंड	110. पैराग्वे
69. इजराइल	111. पेरू
70. इटली	112. फिलिपींस
71. जमैका	113. पोलैंड
72. जापान	114. पुर्तगाल
73. जॉर्डन	115. कतर
74. केन्या	116. रोमानिया
75. कोरिया गणराज्य	117. रवांडा
76. कुवैत	118. सेंट किट्स और नेविस
77. किरगिज़ गणतंत्र	119. सेंट लूसिया

120. सेंट विन्सेंट और ग्रेनाडीन्स
121. सारूदी अरब
122. सेनेगल
123. सिएरा लियोन
124. सिंगापुर
125. स्लोवाक गणराज्य
126. स्लोवेनिया
127. सोलोमन आइलैंड्स
128. दक्षिण अफ्रीका
129. स्पेन
130. श्रीलंका
131. सूरीनाम
132. स्वाजीलैंड
133. स्वीडन
134. स्विजरलैंड
135. ताइपे चीनी
136. तंजानिया
137. थाईलैंड
138. टोगो
139. टोंगा
140. त्रिनिदाद और टोबेगो
141. ट्यूनीशिया
142. टर्की
143. यूगांडा
144. यूक्रेन
145. संयुक्त अरब अमीरात
146. यूनाइटेड किंगडम
147. संयुक्त राज्य अमेरिका
148. उरूग्वे
149. वेनेजुएला (बोलीवेरिअन गणराज्य)
150. वियतनाम
151. जाम्बिया
152. जिम्बाब्वे

[फा. सं. 11(1)/2009-एसआईसीएलडीडी]

राज कुमार गोयल, संयुक्त सचिव

नोट:-मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, आसाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) अधिसूचना संख्या का.आ. 2745 (अ), तारीख 8 दिसम्बर, 2011 में प्रकाशित किया गया था।

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY**

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2014

S.O. 307 (E).— In exercise of the powers conferred by section 93 of the Semiconductor Intergrated Circuits Layout-Design Act, 2000 (37 of 2000), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Communications and Information Technology (Department of Electronics and Information Technology) *vide* number S.O. 2745 (E), dated the 2nd December, 2011 published in the Gazette of India dated 8th December, 2011, the Central Government hereby declares the following countries as convention countries with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette for the purposes of the provisions of the said Act, namely:—

Sl. No.	Name of the Country
---------	---------------------

- | | |
|-----|---------------------|
| 1. | Albania |
| 2. | Angola |
| 3. | Antigua and Barbuda |
| 4. | Argentina |
| 5. | Armenia |
| 6. | Australia |
| 7. | Austria |
| 8. | Bahrain, Kingdom of |
| 9. | Bangladesh |
| 10. | Barbados |
| 11. | Belgium |
| 12. | Belize |
| 13. | Benin |
| 14. | Bolivia |
| 15. | Botswana |
| 16. | Brazil |
| 17. | Brunei Darussalam |
| 18. | Bulgaria |
| 19. | Burkina Faso |
| 20. | Burundi |
| 21. | Cambodia |
| 22. | Cameroon |
| 23. | Canada |
| 24. | Cape Verde |

25. Central African Republic	64. Hong Kong, China
26. Chad	65. Hungary
27. Chile	66. Iceland
28. China	67. Indonesia
29. Colombia	68. Ireland
30. Congo	69. Israel
31. Costa Rica	70. Italy
32. Cote d'Ivoire	71. Jamaica
33. Croatia	72. Japan
34. Cuba	73. Jordan
35. Cyprus	74. Kenya
36. Czech Republic	75. Korea, Republic of
37. Democratic Republic of the Congo	76. Kuwait
38. Denmark	77. Kyrgyz Republic
39. Djibouti	78. Latvia
40. Dominica	79. Lesotho
41. Dominican Republic	80. Liechtenstein
42. Ecuador	81. Lithuania
43. Egypt	82. Luxembourg
44. El Salvador	83. Macao, China
45. Estonia	84. Madagascar
46. European Communities	85. Malawi
47. Fiji	86. Malaysia
48. Finland	87. Maldives
49. Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)	88. Mali
50. France	89. Malta
51. Gabon	90. Mauritania
52. The Gambia	91. Mauritius
53. Georgia	92. Mexico
54. Germany	93. Moldova
55. Ghana	94. Mongolia
56. Greece	95. Morocco
57. Grenada	96. Mozambique
58. Guatemala	97. Myanmar
59. Guinea	98. Namibia
60. Guinea Bissau	99. Nepal
61. Guyana	100. Netherlands
62. Haiti	101. New Zealand
63. Honduras	102. Nicaragua

103. Niger	130. Sri Lanka
104. Nigeria	131. Suriname
105. Norway	132. Swaziland
106. Oman	133. Sweden
107. Pakistan	134. Switzerland
108. Panama	135. Taipei Chinese
109. Papua New Guinea	136. Tanzania
110. Paraguay	137. Thailand
111. Peru	138. Togo
112. Philippines	139. Tonga
113. Poland	140. Trinidad and Tobago
114. Portugal	141. Tunisia
115. Qatar	142. Turkey
116. Romania	143. Uganda
117. Rwanda	144. Ukraine
118. Saint Kitts and Nevis	145. United Arab Emirates
119. Saint Lucia	146. United Kingdom
120. Saint Vincent and The Grenadines	147. United States of America
121. Saudi Arabia	148. Uruguay
122. Senegal	149. Venezuela (Bolivarian Republic of)
123. Sierra Leone	150. Vietnam
124. Singapore	151. Zambia
125. Slovak Republic	152. Zimbabwe
126. Slovenia	[F.No. 11(1)/2009-SICLDD]
127. Solomon Islands	RAJ KUMAR GOYAL, Jt. Secy.
128. South Africa	Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) <i>vide</i> notification number S.O. 2745 (E), dated the 8th December, 2011.
129. Spain	